



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र 1946 (श10)

(सं0 पटना 866) पटना, शुक्रवार, 30 अगस्त 2024

सं0 2/आरोप-01-15/2020-8990/सां०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

7 जून 2024

श्री अंजय कुमार राय (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 775/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, हथुआ, गोपालगंज के विरुद्ध माननीय न्यायालय की आदेशों की अवहेलना करने एवं सरकारी दायित्व का उचित तरीके से निर्वहन करने इत्यादि आरोपों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा गठित आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आरोप-पत्र एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र पुनर्गठित किया गया।

श्री राय के विरुद्ध गठित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5315 दिनांक 05.04.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के ज्ञापांक 1004 दिनांक 30.09.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राय के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 22435 दिनांक 11.12.2023 द्वारा (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18) एवं (ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा श्री राय के दिनांक 31.05.2024 को सेवानिवृत्त होने एवं संकल्प ज्ञापांक 22435 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अधिरोपित दंड प्रभावी नहीं होने की सूचना दी गयी।

महालेखाकार से प्राप्त पत्र के आलोक में श्री राय से संबंधित मामले की सम्यक् समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राय दिनांक 30.06.2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्री राय के विरुद्ध अन्य मामलों में पूर्व से अधिरोपित दंड अभी भी प्रभावी है। फलतः तकनीकी दृष्टिकोण से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 22435 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अधिरोपित दंड “असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक” प्रभावी नहीं हो पा रहा है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री अंजय कुमार राय के सेवानिवृत्ति (दिनांक 30.06.2024) को देखते हुए इनके विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 22435 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अधिरोपित दंड को संशोधित करते हुए “निन्दन (आरोप वर्ष 2019-20)” की शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अंजय कुमार राय (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 775/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, हथुआ, गोपालगंज के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 22435 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अधिरोपित दंड को प्रतिस्थापित करते हुए “निन्दन (आरोप वर्ष 2019-20)” की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 866-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>